

वयस्कों के लिए नया स्वास्थ्य बीमा

1 जनवरी, 2019 से, वर्जीनिया के और अधिक वयस्क निवासी उम्दा, किफायती और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं!

वयस्कों के लिए नया स्वास्थ्य बीमा क्या है?

Medicaid के नियम अब बदल गए हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले कभी Medicaid के लिए आवेदन किया था और उसे अस्वीकार कर दिया गया था, तो अब आप उसके पात्र हो सकते हैं। 1 नवंबर, 2018 से, और भी अधिक लोग Medicaid के जरिए स्वास्थ्य बीमा के लिए योग्यता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लाभ 1 जनवरी 2019 से शुरू होंगे।

खुदरा, निर्माण, बाल-देखभाल, भूदृश्य-सज्जा (डस्केपिंग), खानपान सेवा और कई अन्य नौकरियों से जुड़े वे लोग अब पात्र हो सकते हैं जिन्हें स्वास्थ्य बीमा पहले उपलब्ध नहीं था।

वयस्कों के लिए नया स्वास्थ्य बीमा कम आय वाले उन परिवारों के लिए बहुत अच्छे लाभ देता है जो अन्यथा स्वास्थ्य देखभाल पाने में सक्षम नहीं हो सकते।

इसमें क्या-क्या शामिल है?

नये स्वास्थ्य बीमा में वयस्कों के लिए निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

- डॉक्टर, अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं
- सुझाई गई दवाएं
- प्रयोगशाला और एक्स-रे सेवाएं
- मातृत्व और नवजात देखभाल
- दीर्घकालिक देखभाल और सहायता सेवाएं
- घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं
- व्यसन और उससे उबरने की उपचार सेवाओं सहित बर्ताव-संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं
- शारीरिक, व्यावसायिक और वाक (स्पीच) चिकित्सा सहित पुनर्वास-संबंधी सेवाएं
- कोई विकल्प उपलब्ध न होने पर Medicaid-समाहित सेवाओं के लिए परिवहन
- परिवार नियोजन सेवाएं
- चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति
- निवारक और कल्याणकारी सेवाएं और पुरानी बीमारी के प्रबंधन की सेवाएं
- और भी बहुत कुछ!

कौन शामिल हैं?

वयस्क नए स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्र हो सकते हैं अगर वे:

- वर्जीनिया में रहते हैं
- 19 - 64 के आयु वर्ग में हैं
- चिकित्सा-देखभाल नहीं पा कर रहे हैं या पात्र नहीं हैं
- आय की अपेक्षाएं पूरी करें, जो परिवार के आकार के अनुसार अलग-अलग होती हैं

वयस्क बीमा आय सीमा (सकल*)

| परिवार का आकार | मासिक | वार्षिक |
|----------------|---------|----------|
| 1 | \$1,677 | \$20,121 |
| 2 | \$2,268 | \$27,214 |
| 3 | \$2,859 | \$34,307 |
| 4 | \$3,450 | \$41,400 |
| 5 | \$4,042 | \$48,494 |
| 6 | \$4,633 | \$55,587 |

*20 जनवरी, 2023 से प्रभावी।
वार्षिक रूप से समायोजित आय सीमा

मैं कैसे आवेदन करूं?

- कवर वर्जीनिया कॉल सेंटर को 833-5CALLVA पर कॉल करें। दुभाषिए उपलब्ध हैं। हमारे प्रतिनिधि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करवाएंगे जो आपकी पसंदीदा भाषा बोलता हो।
- सामान्य सहायता पर कोई ऑनलाइन आवेदन भरें: www.commonhelp.virginia.gov
- स्वास्थ्य बीमा बाज़ार पर कोई ऑनलाइन आवेदन भरें: www.healthcare.gov
- अपने स्थानीय सामाजिक सेवा विभाग को मेल करें या कोई कागज़ी आवेदन भेजें

आपके द्वारा आवेदन करते समय आपको ज़रूरत पड़ने वाले दस्तावेजों की सूची के लिए www.coverva.org पर जाएं और आवेदन पृष्ठ पर क्लिक करें।